



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 71]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 14, 1977/साध 25, 1898

No. 71]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 14, 1977/MAGHA 25, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February 1977

S.O. 165(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its notification No. 434/GJ/75(3), dated 2nd May, 1975, the Election Commission hereby appoints, in addition to the officer or officers appointed by its notifications No. 434/GJ/74(2) dated 10 January, 1975 and No. 434/GJ/77(2) dated 29th January, 1977, in respect of every assembly constituency and parliamentary constituency in the State of Gujarat, the Deputy District Election Officer of the district in which the whole or any part of that constituency lies, as the officer to assist the Returning Officer of that assembly or parliamentary constituency as the case may be in the performance of his duties.

[No 434/GJ/77.]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1977

का० आ० 165 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा तारीख 2 मई, 1975 की अपनी अधिसूचना सं० 434/गुज०/75(3) को अधिक्रान्त करते हुए निर्वाचन आयोग, तारीख 10 जनवरी, 1975 की इसकी अधिसूचना सं० 434/गुज०/74(2) और तारीख 29 जनवरी, 1977 की अधिसूचना सं० 434/गुज०/77(2) द्वारा नियुक्त किए गए आफिसर या आफिसरों के अतिरिक्त, गुजरात राज्य में प्रत्येक सभा निर्वाचन-क्षेत्र और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के बारे में उस जिले के उप जिला निर्वाचन आफिसर को, जिसमें वह निर्वाचन-क्षेत्र अथवा उसका कोई भाग पड़ता है, यथा स्थिति उस सभा अथवा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एतद्द्वारा नियुक्त करता है ।

[सं० 434/गुज०/77]

आदेश से,

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मंत्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977